



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 740) पटना, बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022

पत्र संख्या-6/अग्नि0से0-01-16/2021 गृ0आ0/9358

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना, दिनांक 14 सितम्बर, 2022

विषय :-

बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा परिभाषित पदनाम एवं विहित पदसोपान के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा के अंतर्गत राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि के कुल 154 पद के साथ राज्य अग्निशमन परामर्शी एवं सलाहकार का 01 गैर-संवर्गीय पद का सृजन एवं पूर्व से सृजित राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि के 07 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति।

आदेश :-

वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-3ए-8-बैठक-01/2019-6832, दिनांक-07.10.2021, ज्ञापांक-6438, दिनांक-07.07.2022 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-7080, दिनांक-27.07.2022 के आलोक में स्वीकृत।

2. प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए निम्न पद सृजित किए जाते हैं :-

क्र0	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1.	निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	13	01
2.	अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	12	04
3.	उप निदेशक (क्षेत्रीय-9 पद, मुख्यालय-4 पद एवं अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में प्राचार्य हेतु-1 पद)	11	14

क्र०	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या
4.	सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी / जिला अग्निशमन पदाधिकारी	9	59
5.	सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी	7	76
		कुल पद	154
	गैर-संवर्गीय पद :-		
1.	राज्य अग्निशमन परामर्शी एवं सलाहकार	13	01

3. उपर्युक्त नव सृजित पदों पर नियुक्त होने वाले सरकारी सेवकों के वेतनादि का भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष के अंतर्गत माँग सं०-22, बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 108-अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण, उप शीर्ष 0001-अग्नि रक्षा सेवा तथा विपन्न कोड 22-2070.00.108.0001 से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशालय स्तर पर निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर उप निदेशक, जिला स्तर पर संबंधित जिलों के जिला अग्निशमन पदाधिकारी, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा के लिए प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा होंगे।

5. प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में पूर्व से सृजित राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि के निम्न पदों को प्रत्यर्पित किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1.	राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	11	01
2.	सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	8	01
3.	प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी	7	01
4.	सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी	7	04
		कुल पद-	07

6. वित्त विभाग के माध्यम से प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-21.06.2022 को आयोजित बैठक (ज्ञापांक-6832, दिनांक-07.10.2021 एवं ज्ञापांक-6438, दिनांक-07.07.2022 द्वारा निर्गत) एवं वित्त विभाग के शुद्धि पत्र ज्ञापांक-7080, दिनांक-27.07.2022 के आलोक में विभिन्न कोटि के राजपत्रित/अराजपत्रित एवं गैर संवर्गीय कोटि के समेकित रूप से कुल-155 पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि के 07 पदों के प्रत्यर्पण के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या-6/अग्नि०से०-01-16/2021 गृ०आ० के पृ०-90/टि० पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-13.09.2022 की मद संख्या-18 के रूप में प्राप्त है।

8. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-6/अग्नि०से०-01-16/2021 गृ०आ० के पृ०-92/टि० पर दिनांक-14.09.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 740-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>